



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 470]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 1982/आश्विन 22, 1904

No. 470]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 1982/ASVINA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1982

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1982

क्र० भा० 742 (अ)—केन्द्रीय सरकार स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 27 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 114 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियंत्रण (व्यवहारियों का अनुज्ञापन) नियम, 1969 का और संशोधन करती है अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वर्ण नियंत्रण (व्यवहारियों का अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वर्ण नियंत्रण (व्यवहारियों का अनुज्ञापन) नियम, 1969 के, नियम 3 के खण्ड (डू डू) में, "बारह मास" शब्दों के स्थान पर, "छत्तीस मास" शब्द रखे जाएंगे।

S.O. 742(E).—In exercise of the powers conferred by section 114, read with sub-section (6) of section 27 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gold Control (Licensing of Dealers) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Gold Control (Licensing of Dealers) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Gold Control (Licensing of Dealers) Rules, 1969, in rule 3, in clause (e) for the words "twelve months", the words "thirty-six months" shall be substituted.

[सं० एफ० 132/34/80 जीसी-II—सं० 6/82]

[F. No. 132/34/80-GC.II—No. 6/82]

का० आ० 743 (अ):—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियंत्रण (प्रारूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वर्ण नियंत्रण (प्रारूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्—

“(2) इस प्रकार जारी की गई अनुज्ञप्ति तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए विधिमाम्य होगी और उस वर्ष के अन्त में उनकी विधिमाम्यता समाप्त होगी है, 31 दिसम्बर को समाप्त हो जाएगी।”

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट में प्रारूप सं० छ.घ. 6, में उपावृत्ति अनुसूची की मद 13 में, “12 मास” शब्द और शब्द के स्थान पर “36 मास” शब्द और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० एफ० 132/34/80-जीसी-II-सं० 7/82]

बी० के० बक्षी, उ० सचिव

S.O. 743(E).—In exercise of the powers conferred by section 114 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) The licence so issued shall be valid for a period not exceeding three years and shall expire on the 31st day of December of the year in which its validity expires.”

3. In the Appendix to the said rules, in the Schedule attached to Form No. G.S. 6, in item 13, for the figures and letter “12 months”, the figures and letter “36 months” shall be substituted.

[F. No. 132/34/80-GC.II—No.7/82]

B. K. BAKSHI, Dy. Secy.